

कृषि विज्ञान केंद्र मांडू, रामगढ़ में 05 दिसम्बर, 2020 को विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया



कृषि विज्ञान केंद्र मांडू, रामगढ़ में 05 दिसम्बर, 2020 को विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में मांडू के माननीय विधायक श्री जय प्रकाश भाई पटेल उपस्थित रहे। इस आयोजन में रामगढ़ जिला के विभिन्न गावों के किसानों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान केंद्र के प्रभारी डॉ डी के राघव ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए केंद्र में चल रहे 15 दिवसीय एकीकृत पोषक प्रबंधन प्रशिक्षण से अवगत कराया एवं प्रशिक्षण कर रहे रामगढ़ एवं हजारीबाग के पैक्स के अध्यक्ष एवं सदस्यों से परिचय कराया। मुख्य अतिथि ने आयोजन में आए किसानों एवं प्रशिक्षण कर रहे सभी लोगो को विश्व मृदा दिवस समारोह की बधाई देते हुए कहा की सही तरीके से उत्पादन की चाह में मिट्टी का प्रबंधन एवं रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य एवं कृषि उत्पादन भी बढ़ती है। उन्होंने मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ जंगलो के पत्ते को जलने के बजाये उससे खाद बनाने पर जोर दिया। केंद्र के प्रभारी इस आयोजन के दौरान हरी खाद का उपयोग, जैविक खाद एवं तरल खाद का प्रयोग, टपक सिंचाई विधि, सुक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग एवं खाद इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रबंधन एवं उपयोग में लागत में कमी लाने के लिए विभिन्न उन्नत कृषि तकनीकों का समावेश आवश्यक है। उर्वरक के उपयोग की सही जानकारी मृदा स्वास्थ्य एवं लागत में कमी के लिए अति आवश्यक है। कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉ० धर्मजीत खेरवार ने कार्यक्रम आए सभी लोगो को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुशंसा के आधार पर मिट्टी में पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग का महत्व बताते हुए कहा की परती जमीन में बागवानी लगाने एवं जैविक खाद के प्रयोग पर बल दिया। कार्यक्रम में केंद्र के श्री आशीष बालमुचू, श्री सन्नी कुमार एवं शशि कान्त चौबे के साथ-साथ लगभग 100 लोग उपस्थित रहे।